

শ্ৰীঃ

**শ্ৰী মীনাক্ষীস্তোত্ৰম्**

**পূর্ণি মেনোকষ্ঠি সংতোষাত্মৰম্**

(1)

শ্ৰীবিদ্যে শিববামভাগনিলযে শ্ৰীৱাজৰাজাৰ্চিতে  
 শ্ৰীনাথাদিগুৰুস্বৰূপবিভবে বিন্তামণীপীঠিকে।  
 শ্ৰীবাণীগিৰিজানুতাম্পিকমলে শ্ৰীশাম্ভবি শ্ৰীশিশৰে  
 সঘাহে সলয়ধৰ্মজাধিপসুতে সাং পাহি মীনাম্বিকে ॥

পূর্ণি বিত্ত্যে শিববামপাক নীলযে পূর্ণি রাজুৱাজুৱার্চিতে  
 পূর্ণিৱাতাতী কুরুস্বৰূপ বিপবে শিৰ্ন্তামণীপীঠিকে।  
 পূর্ণিবাণীকীৱীজু নুতাঙ্ককৰিকমলে পূর্ণি শাম্পবী পূর্ণিচিবে  
 মত্যাহুন্নে মলয়ত্বজ্ঞাতিপসূতে মাম পাহুৰি  
 মেনোম্পিকে।

পূর্ণিবিত্ত্যেয়াকবুম, শিবনীন ইটুপাকত্তিল ইরুপ  
 পবঙ্গুম, কুপেৱনাল পুজীককপ্পত্তবঙ্গুম, পূর্ণি নাতৰ মুতলিয  
 কুরুবষ্টিলে মিলিৰুম বেপুৰুষে কেৱন্তবঙ্গুম, শিৰ্ন্তামণী  
 পীঠত্তিল ইরুপবঙ্গুম, পূর্ণি সৱস্বল্লত, তুৰংকে তেবিযৰাল  
 পুজীককপ্পত্তবঙ্গুম, মলয়ত্বজ্ঞন মকঙ্গুমাকিয মেনোম  
 পিকেযে এন্নেন কাত্তরুন্বাযে!

(2)

চক্রস্থেচপলে চৰাচৰজগন্নাথে জগত্পূজিতে  
 আৰ্তালীৱৰদে নতাভযকরে বক্ষোজভাৰান্বিতে।  
 বিদ্যে বেদকলাপমৌলিবিদিতে বিদ্যুল্লতাবিগ্ৰহে  
 মাত: পূৰ্ণসুধারসাৰ্দ্রছদ্যে সাং পাহি মীনাম্বিকে ॥

চক্রস্থেচপলে চৰাচৰজন্নাথে জীকত্পুজীতে  
 আৰ্তালীৱৰতে নতাপযকৰে বক্ষেকুজুপৰাণবিতে।  
 বিত্ত্যে বেতকলাপ মেলালি বীতীতে  
 বীত্যুললতাবীকৰণে  
 মাত: পুৰ্ণসুধারসাৰ্দ্রছদ্যে  
 মাম পাহুৰি মেনোম্পিকে ॥

தாயே! அம்ருத ரஸம் நிறைந்து நெகிழ்ந்த ஹ்ருதய மூளை, மீனாம்பிகே! என்னை காப்பாய்! நீ ஸ்ரீசக்ரத்தில் ஸ்திரமாய் இருப்பவள். சராசர ஜகத்துக்கு நீயே தலைவி! உலகமனைத்தும் உன்னை பூஜிக்கிறது. எனியோரை வரமளித் தும், வணங்கியவரை தேற்றியும், திரண்ட மார்பகங்களுடன் காட்சியளிக்கிறாய். நீ வித்யாருபினி. உபநிஷத் பொருளாய், மின்னலேயுருவாய் விளங்குகிறாய்.

(3)

கோடீராஜ்வரலகுண்டலघரே கோடண்டவாணாஷிதே  
கோகாகாரகுஷத்தியோபரிலஸத்யாலஸ்விஹாராஷிதே ।  
ஶிஞ்சந்திரபுரபாட்ஸாரஸமணிஶ்ரீபாடுகாலகுதே  
மாநாரித்திரமுஜங்஗ாருத்தாரே மா பாஹி மீநாஸ்விகே ॥

கோமராங்கதரத்னகுண்டலதரே  
கோதண்டபாணுஞ்சிதே  
கோகாகாரகுசத்வயோபரி லஸத்  
ப்ராலம்பி ஹாராஞ்சிதே ।  
சிஞ்ஜுநநாபுரபாதஸாரஸமணி  
ஸ்ரீ பாதுகாலங்கருதே  
மத்தாரித்தர்யப்ஜநங்ககாருடகே  
மாம் பாஹி மீனாம்பிகே ॥

கிரிடம்: தோள்வளை, ரத்ன குண்டலங்களை தரித் தவஞும், கோதண்டம், பாணம் இவற்றை கையில் ஏந்தியவனும், சக்ரவாகம் யோன்ற மார்பகங்களில் மினிரும் நீண்ட ஹாரங்களை யுடைவனும், ஒலிக்கும் காற்சதங்கையும், அழகிய பாதுகை களும் அழகு சேர்க்க, என் ஏழ்மையாகிய பாம்பிற்கு கருடனாயி ருப்பவனுமான ஸ்ரீ மீனாக்ஷி தேவியே! என்னைக் காப்பாயாக!

(4)

ब्रह्मेशाच्युतगीयमानचरिते प्रेतासनान्तस्थिते  
 पाशोदद्वृशचापवाणकलिते बालेन्दुचूडाङ्गिते ।  
 बाले बालकुरङ्गलोलनयने बालार्ककोट्युज्ज्वले  
 मुद्राराधितदेवते मुनिनुते मां पाहि मीनाम्बिके ॥

परवृंग्मेशाक्ष्युत कीयमाणसीते  
 परेतासनान्तः संस्थीते  
 पाशोत्तंगुक्ष चापपाणकलिते  
 पालेन्तु कुटाञ्चिते!  
 पाले पालकुरांकलोल नयने  
 पालार्ककोट्युज्ज्वले  
 मुतरा रातीतदेवते मुनिनुते  
 माम पावृंग्मीनाम्पिके॥

प्रम्मा, परमेश्वरन्, विष्णु आक्षियोर् पोर्हीप  
 पातुम् सीतम् उत्तेयवलो परेतासनान्तिल वीर्हीरुप्पवलो  
 पाशम्, अन्गुशम्, वील्, पाणम् इवर्हरै वैवत्तिरुप्पवलो!  
 इनम् सन्तिरणन् अणीन्तवलो! माणंकुट्टियिं मिरण्ट  
 कण्णकल् पोन्नरै कण्णकण्णयुत्तेयवलो, पालकुर्यणन  
 येऽत्तु पिरकाचिप्पवलो! मुत्तिरेकणाल आरातीक्कप  
 पट्टवलो! मुनिवर्कल् संतोत्तरम् चेय्युम् मीनाम्पिकये  
 एन्णन् कात्तरुल्!

(5)

गन्धर्वमरयक्षपन्नगनुते गङ्गाधरालिङ्गिते  
 गायत्रीगरुडासने कमलजे सुश्यामले सुस्थिते ।  
 खातीते खलदारुपावकशिखे खद्योतकोट्युज्ज्वले  
 मन्त्राराधितदेवते मुनिनुते मां पाहि मीनाम्बिके ॥

कन्तर्वामरयक्ष पन्नकन्तुते  
 कंपकातरालीयकीते  
 कायत्तीकरुटासने कमलज्जे  
 लाच्यामले लासंस्थीते।

காதீதே கலதாரு பாவகசிகே  
 கத்யோதகோடயுஜ்வலே  
 மந்தரா ராதிததேவதே முனிநுதே  
 மாம் பாஹி மீனாம்பிகோ

கந்தர்வர்கள், தேவர்கள், யக்ஷர்கள், நாகங்கள் ஆகியோ  
 ரால் போற்றப்பட்டவளே, பரமேச்வரரால் அணையப்பட்  
 டவளே! காயத்ரி போன்று கருடாஸனம் கொண்டவளே,  
 தாமரையில் தோன்றி நன்கு அமர்ந்த ச்யாமலையே! ஆகாயம்  
 கடந்தவளே! அக்னிஜ்வாலையாக இருப்பவளே, ஆயிரமாயிரம்  
 மின்மினி பூச்சி போன்று பிரகாசிப்பவளே, மந்திரங்களால்  
 முனிவர் ஸ்தோத்ரம் செய்யப்பட்டவருமான மீனாம்பிகையே  
 என்னை காப்பாய்!

(6)

நாடே நார்஦தும்ராதிவிநுதே நாவாந்தநாவாஸிகே  
 நித்ய நீலல்தாஸிகே நிருபமே நீவாரஶூகோபமே |  
 காந்தே காமகலே கடம்஬னிலயே காமேஶ்வராதூஸ்திதே  
 ஸ்திதே ஸ்தம்஭ிஷ்கலப்பலதிகே மா பாஹி ஸ்திநாஸ்திகே ||

நாதே நாரததும்புராத்யவிநுதே நாதாந்த நாதாத்மிகே  
 நித்யேநீலல்தாத்மிகே நிருபமே நீவாராகுகோபமே!  
 காந்தே காமகலே கதம்ப நிலயே காமேச்வராங்கஸ்திதே  
 மத்வித்யே மதபீஷ்டகல்பலதிகே மாம் பாஹி  
 மீனாம்பிகோ

நாதஸ்வருபிணியாயும், நாரதர், தும்பரு முதலியோரால்  
 வணங்கப்பட்டவளாயும், நாதமுடிவில் நாதமாய் இருப்  
 பவரும், நித்யமாயும், நீலக் கொடியாயிருப்பவரும், நிகரற்  
 றவளாயும், நீவாரதான்யத்தின் முனையாயிருப்பவரும், அழகிய  
 காமகலையாய் கதம்ப மரத்தடியில் காமேச்வரனின் மடியில்  
 தவழ்பவளாயும், எனது வித்தையாய் எனது விருப்பங்களை  
 நிறைவேற்றும் கல்பகமாயுமிருக்கிற ஹே மீனாம்பிகே என்னை  
 காப்பாற்றி விடு.

(7)

वीणानादनिमीलितार्धनयने विस्सस्तचूलीभरे  
 ताम्बूलारुणपञ्चवाधरयुते ताटङ्गुहारान्विते ।  
 श्यामे चन्द्रकलावतंसकलिते कर्तूरिकाफालिके  
 पूर्णे पूर्णकलाभिरामवदने मां पाहि मीनाम्बिके ॥

वैणो नात नीमीलितार्थ नयेणे विस्सरसंतु कुलीपरे  
 ताम्पूलारुणे पल्लवात्तरायुते ताटङ्गक  
 वृाराण्डिते!  
 श्यामे चन्द्रकलावतंसकलिते कर्तूरिकापालिके  
 तुर्णेण तुर्णेण कलापिराम वत्तेणे माम पाहृ  
 मीनाम्पिके॥

वैणो नात तिलं पकुति लुष्टय कण्कणेयुटेयवेळे,  
 कर्ण रेष्ट अविघ्रन्त तलेलमुष्टयेयुटेयवेळे, ताम्पूलत्तहालं  
 तुलीर्पोल चिवन्त उत्तु उटेयवेळे! कातेलाले, वृाराम  
 अणीन्तवेळे! करुनीलनीरमाणवेळे! पूर्णेण सन्तुरं पोलं र  
 अमुकिय मुकमुलावेळे मीनाम्पिकेये! एन्नेण काप्पायाक!

(8)

शब्दब्रह्मयी चराचरमयी ज्योतिर्मयी वाङ्मयी  
 नित्यानन्दमयी निरञ्जनमयी तत्त्वंसयी विन्मयी ।  
 तत्त्वातीतमयी परात्परमयी मायामयी श्रीमयी  
 सर्वशर्यमयी सदाशिवमयी मां पाहि मीनाम्बिके ॥

सप्त परवृन्ममयी चराचरमयी इऽयोत्तीर्मयी वाङ्मयी  
 नीत्यानन्दमयी निरञ्जनमयी तत्त्वमयी चिन्मयी  
 तत्त्वातीतमयी परात्परमयी मायामयी पूर्णमयी  
 सर्ववैवस्वर्यमयी सदाशिवमयी माम पाहृ  
 मीनाम्पिके॥

சப்தபிரம்மாயிருப்பவரும், சுராசரமேயுருவானவரும்,  
ஒளிமயமாயிருப்பவரும், வாக்ஸ்வரூபினியாயும், சாச்வத  
ஆனந்தமயமாயிருப்பவரும், மாசற்ற தத்வ ஜ்ஞானமா  
யிருப்பவரும், தத்வம் கடந்து, பரத்தைக் கடந்த நிலையி  
லிருப்பவரும், மாயா லக்ஷ்மீ ரூபினியாயும், எல்லா ஜ்சுவர்ய  
ரூபினியாயும், ஸதாசிவமயமாகவும் திகழும் ஹெ மீனாம்பிகே  
என்னை காப்பாயாக!

மீனாக்ஷி ஸ்தோத்ரம் முற்றிற்று

